| नामांक |  |  | Roll No. |  |  |  |  |
|--------|--|--|----------|--|--|--|--|
|        |  |  |          |  |  |  |  |
|        |  |  |          |  |  |  |  |

No. of Questions — 16

SS-37-1-B.I.S. & App. I

No. of Printed Pages — 3

## उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2011

## **SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 2011**

वैकल्पिक वर्ग III – वाणिज्य (Optional Group III – Commerce) व्यावसायिक सूचना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग — प्रथम पत्र

## **BUSINESS INFORMATION SYSTEM & APPLICATION** — First Paper

समय :  $3\frac{1}{4}$  घण्टे

पूर्णांक : 60

## परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश:

GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES:

- 1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यत: लिखें।
  - Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily.
- 2. प्रश्न पत्र के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तर में किसी प्रकार की त्रुटि / अन्तर / विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को सही मानें ।
  - If there is any error / difference / contradiction in Hindi & English versions of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid.
- 3. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
  - All the questions are compulsory.
- 4. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
  - Write the answer to each question in the given answer-book only.
- 5. जिस प्रश्न के एक से अधिक समान अंक वाले भाग हैं, उन सभी भागों का हल एक साथ सतत् लिखें।

For questions having more than one part carrying similar marks, the answers of those parts are to be written together in continuity.

SS-37-1-B.I.S. & App. I

SS-576

Turn over

6. प्रश्न क्रमांक **1** के पाँच भाग ( i, ii, iii, iv तथा v ) हैं । प्रत्येक भाग के उत्तर के चार विकल्प ( **अ, ब, स** एवं **द** ) हैं । सही विकल्प का उत्तराक्षर उत्तर-पुस्तिका में निम्नानुसार तालिका बनाकर लिखें :

There are *five* parts ( i, ii, iii, iv and v ) in Question No. 1. Each part has *four* alternatives A, B, C and D. Write the letter of the correct alternative in the answer-book at a place by making a table as mentioned below :

|    | एन क्रमांक<br>estion No. | सही उत्तर का क्रमाक्षर<br>Correct letter of<br>the Answer |  |  |  |  |
|----|--------------------------|---|--|--|--|--|
| 1. | (i)                      |   |  |  |  |  |
| 1. | (ii)                     |   |  |  |  |  |
| 1. | (iii)                    |   |  |  |  |  |
| 1. | (iv)                     |   |  |  |  |  |
| 1. | (v)                      |   |  |  |  |  |

|    |       | 1. (v)                             |        |                        |   |
|----|-------|------------------------------------|--------|------------------------|---|
| 1. | (i)   | मानव निर्मित सूचना तंत्र है        |        | <u></u>                |   |
|    |       | (अ) औपचारिक                        | (ৰ)    | अनौपचारिक              |   |
|    |       | (स) (अ) तथा (ब) दोनों              | (द)    | इनमें से कोई नहीं ।    |   |
|    |       | Manmade information system is      | 8      |                        |   |
|    |       | (A) Formal                         | (B)    | Informal               |   |
|    |       | (C) Both (A) and (B)               | (D)    | None of these.         | 1 |
|    | (ii)  | नियंत्रण प्रणाली का कार्य है       |        |                        |   |
|    |       | (अ) इनपुट                          | (ৰ)    | आउटपुट                 |   |
|    |       | (स) प्रक्रिया                      | (द)    | इनमें से सभी ।         |   |
|    |       | The function of control system i   | S      |                        |   |
|    |       | (A) input                          | (B)    | output                 |   |
|    |       | (C) processing                     | (D)    | all of these.          | 1 |
|    | (iii) | मध्यम स्तरीय प्रबंध संबंधित है     |        |                        |   |
|    |       | (अ) प्रबंधीय नियंत्रण सूचनाएँ      | (ৰ)    | युक्तिय नियोजन सूचनाएँ | Ĭ |
|    |       | (स) संक्रियात्मक सूचनाएँ           | (द)    | इनमें से कोई नहीं ।    |   |
|    |       | Middle level management is con     |        |                        |   |
|    |       | (A) management control inform      | nation |                        |   |
|    |       | (B) strategic planning informa-    | tion   |                        |   |
|    |       | (C) operational information        |        |                        |   |
|    |       | (D) none of these.                 |        |                        | 1 |
|    | (iv)  | निर्णय लेने के लिए डाटा होना चाहिए |        |                        |   |
|    |       | (अ) सही प्रक्रिया द्वारा           | (অ)    | पूर्णत: शुद्ध          |   |
|    |       | (स) (अ) तथा (ब) दोनों              | (द)    | इनमें से कोई नहीं ।    |   |
|    |       |                                    |        |                        |   |

SS-576

SS-37-1-B.I.S. & App. I

|          |            | For      | takin              | g decisi         | ons, da   | ıta must               | be        |           |                  |                    |                   |
|----------|------------|----------|--------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|
|          |            |          |                    | essed c          |           | y                      |           | (B)       |                  | accurate           |                   |
|          |            |          | _                  | (A) and          |           |                        |           | (D)       | none             | of these.          | . 1               |
|          | (v)        | D.S      | s.S. के            | संदर्भ में '     | D' का व   | या अर्थ है             | ?         |           |                  |                    |                   |
|          |            | (अ)      | डाटा               |                  |           |                        | (ब)       | निर्णय    |                  |                    |                   |
|          |            |          | प्रत्यक्ष          |                  |           |                        | (द)       |           | प्ते कोई न       | हीं ।              |                   |
|          |            |          |                    |                  | 'D' in r  | eference               |           |           |                  |                    |                   |
|          |            |          | Data               |                  |           |                        | (B)       | Deci      |                  |                    | -                 |
| _        |            |          | Dire               | ct               |           |                        | (D)       | None      | e of th          | ese.               | 1                 |
| 2.       |            | म्या है  |                    | 0                |           |                        |           |           |                  |                    | 0                 |
| _        |            |          | proces             |                  | _26_      | _                      |           |           |                  |                    | 2                 |
| 3.       |            |          |                    | गरिभाषित         | •         | l                      |           |           |                  |                    | 0                 |
|          |            | _        |                    | red des          | _         |                        |           |           |                  |                    | 2                 |
| 4.       |            |          |                    | त कीजिए<br>ation | , 1       |                        |           |           |                  |                    | 0                 |
| E        |            |          | rganis             |                  | ع عالي    | 1                      |           |           |                  |                    | 2                 |
| 5.       |            |          | रसण्या<br>.S.S.    | परिभाषित         | त का।जए   | l                      |           |           |                  |                    | 2                 |
| 6.       |            |          |                    | सर्वे के ग       | ण्चात के  | पुनरीक्षण से           | ्याग त्रय | त समस्रहे | r <del>2</del> 2 |                    | 2                 |
| 0.       |            |          |                    |                  |           | पुगरादाण स<br>nplemen  |           |           |                  | stem ?             | 2                 |
| 7.       |            |          |                    |                  |           | ? कोई <b>चार</b>       |           |           | or a sy          | Stem .             | 2                 |
| 1.       |            |          |                    |                  |           | ร. ? Writ              |           |           | nefits.          |                    | 2                 |
| 8.       |            |          |                    |                  |           | में समझाइ              |           | , DC1     | TOTTED.          |                    | _                 |
| <b>.</b> |            |          |                    |                  |           | a systen               | •         | ef.       |                  |                    | 3                 |
| 9.       |            |          |                    |                  |           | ों को <sup>ँ</sup> समझ |           |           |                  |                    |                   |
|          |            |          |                    |                  |           | n the ch               |           | istics o  | of infor         | mation.            |                   |
|          |            |          |                    |                  | -         |                        |           |           |                  |                    | 2 = 3             |
| 10.      | नियो       | जन सूच   | वना औ              | : नियंत्रण       | सूचना में | अन्तर बता              | इए ।      |           |                  |                    |                   |
|          |            |          |                    |                  |           |                        |           |           |                  | nformatio          | on. 3             |
| 11.      |            |          |                    |                  |           | बन्द तंत्र वे          |           |           |                  |                    |                   |
|          |            |          |                    | mean b           | y syste   | em? Dis                | stinguis  | h betv    | veen oj          | pen and            |                   |
| •        |            | tems.    |                    | 26-              |           |                        |           |           |                  | 1 +                | 2 = 3             |
| 12.      | प्रणाल     | ता म त   | lll <del>h</del> h | त्र भारतक        | प्रारूप क | ो समझाइए               | I         |           |                  | 1                  | 1                 |
|          | Exp        | lain     | logical            | and pl           | nysical   | design ir              | ı syster  | n.        |                  | $2\frac{1}{2} + 2$ | $\frac{1}{2} = 5$ |
| 13.      | सचन        | । संग्रह | ण के उ             | पकरणों व         | का वर्णन  | कीजिए ।                |           |           |                  |                    |                   |
| 10.      | <i>C</i> / |          |                    |                  |           | ng tools.              |           |           |                  |                    | 5                 |
| 14.      |            |          |                    |                  |           |                        |           | कारों को  | विस्तार          | से समझाइए          | ĮΙ                |
|          | Wha        | at do    | you i              | nean b           | y feasil  | oility stu             | dy?Ex     | xplain    | its diff         | erent typ          | es in             |
|          | deta       |          |                    |                  |           |                        |           | _         |                  |                    | 5 = 7             |
| 15.      |            |          |                    |                  |           | ० एस० के '             |           |           | तमझाइए           |                    |                   |
|          |            |          |                    | _                |           | erent leve             |           |           |                  | 1 +                | 6 = 7             |
| 16.      |            |          |                    |                  |           | णों को विस             |           |           |                  |                    |                   |
|          | Exp        | lain (   | differe            | nt step          | s of sys  | stem deve              | elopmei   | nt life ( | cycle in         | ı detail.          | 7                 |